



प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 07.12.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



**पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व / निर्देशन पर प्रतिदिन की भाति जनपदीय पुलिस के समस्त कार्यालयों/थानों में जनसुनवाई का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को किया गया निस्तारित-**

आज दिनांक 07.12.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भाति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 07.12.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## जनपदीय एसओजी टीम व थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने शातिर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को 08 किलो अवैध गांजा तथा अवैध तमंचा/कारतूस के साथ गिरफ्तार करते हुये जेल भेजा-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व उसमें लिप्त तस्करों व अवैध शस्त्र धारक अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 07.12.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय एसओजी व थाना कोतवाली महोबा की संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया, गठित टीम द्वारा अभियान के तहत थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 529/2022 धारा 307/386/342/504/506 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वांछित शातिर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त वीरेन्द्र चौरसिया उर्फ वीरू पुत्र देशराज चौरसिया उर्फ देशा उम्र करीब 35 वर्ष को थाना कोतवाली महोबा क्षेत्रअन्तर्गत विंध्यवासिनी मन्दिर के सामने से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व 05 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर नाजायज तथा एक बोरी में 08 किलोग्राम सूखा गाँजा नाजायज की बरामदगी की गयी, गिरफ्तारी व मौके से हुयी बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली महोबा में क्रमशः मु.अ.सं. 555/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 556/22 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया।

### गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 रमाकांत शुक्ल
2. उ0नि0 श्री शेरेआलम खाँ
3. कां0 रावेन्द्र सोनकर
4. कां0 श्याम यादव

### जनपदीय एसओजी टीम-

1. उ0नि0 राहुल परमार प्रभारी सर्विलांस टीम
2. उ0नि0 बृजेन्द्र सिंह
3. कां0 अंशुल दुबे
4. कां0 निर्भय सिंह
5. कां0 नरेन्द्र कुमार



अभि0 वीरेन्द्र चौरसिया उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय में कुल 25 मुकदमें पंजीकृत है।



प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 07.12.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



\*सशस्त्र सेना झंडा दिवस\*

युद्ध तथा शांति के समय शहीद होने वाले सैनिकों के सम्मान में 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस मनाया जाता है। “भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस” के अवसर पर जिला सैनिक कल्याण संस्था महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह सहित समस्त पुलिस अधिकारियों को प्रतीकात्मक सशस्त्र सेना झंडा लगाकर सेना के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया साथ ही सशस्त्र सेना झंडा दिवस की शुभकामनाए दी गयी।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी कार्यालय/यातायात सुश्री हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय सहित जिला सैनिक कल्याण संस्था के पदाधिकारीगण मौजूद रहे।